



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3007]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 14, 2019/भाद्र 23, 1941

No. 3007]

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 14, 2019/BHADRA 23, 1941

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

(राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2019

का.आ. 3287(अ).—भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग) के का. आ. 3163 (अ) तारीख 2 सितंबर 2019 की अधिसूचना में भारत के राजपत्र में प्रकाशित, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) पृष्ठ 2 पर 21 लाइन के पश्चात सन्निविष्ट करें -

| | | |
|--------|--------------------------------------|----------------|
| “(घ,क) | केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री | -सदस्य, पदेन;” |
|--------|--------------------------------------|----------------|

[फा. सं. स्था. 01/2016-17/0111/एनएमसीजी-खंड-III]

राजीव किशोर, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

MINISTRY OF JAL SHAKTI

(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)

(NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 14th September, 2019

S.O. 3287(E).—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Jal Shakti (Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation), number S.O. 3163(E) dated the 2nd September, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), at page 4, after line 28, insert—

| | | |
|-------|--|-----------------------|
| “(da) | Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare | -Member, ex-officio;” |
|-------|--|-----------------------|

[F. No. Estt. 01/2016-17/0111/NMCG-Vol-III]

RAJIV KISHORE, Executive Director (Admn.)